

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 595 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 14 नवम्बर 2023 — कार्तिक 23, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 03 नवम्बर 2023

अधिसूचना  
सं. 29/2023-राज्य कर

क्रमांक एफ 10-39/2023/वाक/पांच (57).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या अधिकारी द्वारा अनुपालन की जाने वाली निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया अधिसूचित करती है, जो एसएलपी (सी) संख्यांक 32709-32710/2018 भारत संघ बनाम फिल्कों ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में परिपत्र संख्या 182/14/2022-जीएसटी, 83/2023, तारीख 01 फरवरी, 2023 के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के अधीन उचित अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल करने का आशय रखता है।

2. आदेश के विरुद्ध अपील इस अधिसूचना के उपाबंध | पर दिये संलग्न प्ररूप में दो प्रतियों में की जाएगी और उक्त अधिनियम की यथा स्थिति, धारा 107 की उपधारा (1) या धारा 107 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट समय के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष मैन्युअल रूप से प्रस्तुत की जाएगी, और ऐसे समय की गणना इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख या उक्त आदेश की तारीख, जो भी पश्चातवर्ती हो, से की जाएगी :

परंतु दिनांक 31.07.2023 से पहले अपीलीय प्राधिकारी के पास उक्त अधिनियम की धारा 107 के उपबंधों के अनुसार आदेश के विरुद्ध फाइल कोई भी अपील इस अधिसूचना के अनुसार फाइल की गई मानी जाएगी।

3. अपीलार्थी को उक्त आदेश के विरुद्ध अपील फाइल करने की पूर्व शर्त के रूप में उक्त अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट कोई भी रकम जमा करना अपेक्षित नहीं होगा।

4. इस अधिसूचना के अधीन फाइल की गई अपील के साथ आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति सहित सुसंगत दस्तावेज संलग्न होंगे और ऐसी अपील तथा सुसंगत दस्तावेजों पर छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 26 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

5. अपील की प्राप्ति पर जो इस अधिसूचना में उपबंधित सभी अपेक्षाओं को पूरा करती है, अपील संख्यांक को उपदर्शित करते हुए एक पावती, अपीलीय प्राधिकारी या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में मैन्युअल रूप से जारी की जाएगी और अपील केवल तभी फाइल की जाएगी जब उपरोक्त पावती जारी की हो।

6. अपीलीय प्राधिकारी, अपने आदेश के साथ, इस अधिसूचना के साथ उपाबंध-2 के रूप में संलग्न प्ररूप में आदेश का सारांश जारी करेगा।

7. इस अधिसूचना को 31 जुलाई, 2023 से लागू माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हिम शिखर गुप्ता, सचिव.

उपाबंध -1

### अपीलीय प्राधिकारी को अपील

(एसएलपी (सी) सं0 32709-32710/2018 भारत संघ बनाम फिल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निदेशों के अनुसरण में परिपत्र संख्या 182/14/2022-जीएसटी, 83/2023, तारीख 01 फरवरी, 2023 के अनुसार पारित आदेश के विरुद्ध फाइल की गई)

1. जीएसटीआईएन -
2. अपीलार्थी का विधिक नाम -
3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो -
4. पता -
5. आदेश संख्या -
6. जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसे पारित करने वाले अधिकारी का पदनाम-
7. जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसकी संसूचना की तारीख -
8. प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम -
9. विवादाधीन मामले के ब्यौरे -
  - (i) विवादाधीन मामले का संक्षिप्त विवरण -
  - (ii) परिपत्र संख्यांक 182/14/2022-जीएसटी, 83/2023, तारीख 01 फरवरी, 2023 (अधिनियम-वार) जारी होने से पूर्व दावा की गई ट्रांजिशनल क्रेडिट की रकम।
  - (iii) उपरोक्त उपमद (ii) में निर्दिष्ट दावे के संबंध में धारा 73/74 के अधीन पारित किसी भी आदेश के ब्यौरे :
    - (क) आदेश संख्या - आदेश तारीख -
    - (ख) उक्त आदेश के अनुसार अनुज्ञात रकम (अधिनियम-वार) - रु.
    - (ग) उक्त आदेश के अनुसार उद्ग्रहित हुआ ब्याज और जुर्माना (अधिनियम-वार) - रु.
    - (घ) क्या उक्त आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर की गई है - हां/नहीं
    - (ङ) यदि अपील फाइल की गई है तो अपील संख्या अपील तारीख -
    - (च) उक्त अपील की प्रास्थिति - निस्तारित/लंबित
    - (छ) यदि अपील का निपटारा हो जाता है तो उक्त अपील के अनुसार स्वीकृत क्रेडिट रकम (अधिनियम-वार) - रु.

- (iv) परिपत्र संख्यांक 182/14/2022-जीएसटी, 83/2023, तारीख 01 फरवरी, 2023 (अधिनियम-वार) जारी होने से पूर्व दावा की गई ट्रांजिशनल क्रेडिट की रकम।
- (v) उपरोक्त उपमद (iii) में निर्दिष्ट दावे के अनुसरण में स्वीकृत क्रेडिट की रकम (अधिनियम-वार) – रु.
- (vi) विवादाधीन रकम (अधिनियम-वार) – रु.

10. क्या अपीलार्थी व्यक्तिगत सुनवाई चाहता है – हाँ/नहीं
11. तथ्यों का विवरण :
12. अपील के आधार :
13. प्रार्थना :

## सत्यापन

मैं, <\_\_\_\_\_, सत्यनिष्ठा से पुष्टि और घोषणा करता हूँ कि यहां ऊपर दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

स्थान :  
तारीख :

हस्ताक्षर  
आवेदक का नाम

टिपपण :

- यदि किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए दिया गया स्थान अपर्याप्त पाया जाता है, तो अलग शीट का उपयोग किया जा सकेगा।
- अक्षर "एन.ए." किसी भी मद के विरुद्ध अभिलिखित किया जा सकेगा जो इस अपील के लिए अपेक्षित नहीं है।

उपाबंध -2

परिपत्र संख्या 182/14/2022-जीएसटी, 83/2023, तारीख 01 फरवरी, 2023 के अनुसार पारित किसी आदेश के संदर्भ में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी करने के पश्चात् उपलब्ध संक्रमणकालीन क्रेडिट का सारांश

- क. जीएसटीआईएन –
- ख. अपीलार्थी/व्यक्ति का नाम—  
अपीलार्थी/व्यक्ति का पता –
- ग. आदेश के विरुद्ध अपील की गई— संदर्भ (यदि कोई हो) तारीख—
- घ. अपील संख्या तारीख—
- ड. व्यक्तिगत सुनवाई—
- च. संक्षेप में आदेश—
- छ. आदेश की प्रास्थिति— पुष्टि/उपांतरित/निरस्त
- ज. अपील के पश्चात् क्रेडिट/मांग की राशि—

विशिष्टियां	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
(क) उचित अधिकारी के आदेश के अनुसरण में अनुज्ञेय पाई जाने वाली संक्रमणकालीन क्रेडिट रकम		
(ख) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अवधारित रकम		

स्थान :  
तारीख :

हस्ताक्षर :  
अपीलीय प्राधिकारी का नाम :  
पदनाम :  
अधिकारिता :

अटल नगर, दिनांक 03 नवम्बर 2023

क्रमांक एफ 10-39/2023/वाक/पांच (57).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-39/2023/वाक/पांच(57), दिनांक 03-11-23 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हिम शिखर गुप्ता, सचिव.

Atal Nagar, the 3rd November 2023

NOTIFICATION  
No. 29/2023 – State Tax

No. F 10-39/2023/CT/V(57).— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the following special procedure to be followed by a registered person or an officer referred to in sub-section (2) of Section 107 of the said Act who intends to file an appeal against the order passed by the proper officer under section 73 or 74 of the said Act in accordance with Circular No. 182/14/2022-GST, 83/2023, dated 01 February, 2023 pursuant to the directions of the Hon'ble Supreme Court in the case of Union of India v/s Filco Trade Centre Pvt. Ltd., SLP(C) No.32709-32710/2018.

2. An appeal against the order shall be made in duplicate in the Form appended to this notification at ANNEXURE-1 and shall be presented manually before the Appellate Authority within the time specified in sub-section (1) of section 107 or sub-section (2) of section 107 of the said Act, as the case may be, and such time shall be computed from the date of issuance of this notification or the date of the said order, whichever is later:

Provided that any appeal against the order filed in accordance with the provisions of section 107 of the said Act with the Appellate Authority before the issuance of this notification, shall be deemed to have been filed in accordance with this notification.

3. The appellant shall not be required to deposit any amount as referred to in sub-section (6) of section 107 of the said Act as a pre-condition for filing an appeal against the said order.

4. An appeal filed under this notification shall be accompanied by relevant documents including a self-certified copy of the order and such appeal and relevant documents shall be signed by the person specified in sub-rule (2) of rule 26 of Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017.

5. Upon receipt of the appeal which fulfills all the requirements as provided in this notification, an acknowledgement, indicating the appeal number, shall be issued manually in FORM GST APL-02 by the Appellate Authority or an officer authorised by him in this behalf and the appeal shall be treated as filed only when the aforesaid acknowledgement is issued.

6. The Appellate Authority shall, along with its order, issue a summary of the order in the Form appended to this notification as ANNEXURE-2.

7. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 31st day of July, 2023.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
HIM SHIKHAR GUPTA, Secretary.

ANNEXURE-1

## APPEAL TO APPELLATE AUTHORITY

(Filed against an order passed in accordance with Circular No. 182/14/2022-GST, 83/2023, dated 01 February, 2023 pursuant to the directions issued by the Hon'ble Supreme Court in the Union of India v/s Filco Trade Centre Pvt. Ltd., SLP(C) No.32709-32710/2018)

1. GSTIN—
2. Legal name of the appellant —

3. Trade name, if any –
4. Address –
5. Order No. - Order dated –
6. Designation of the officer passing the order appealed against –
7. Date of communication of the order appealed against –
8. Name of the authorized representative –
9. Details of the case under dispute –
- (i) Brief issue of the case under dispute –
- (ii) Amount of transitional credit claimed before the issuance of Circular No. 182/14/2022-GST, 83/2023, dated 01 February, 2023 (Act-wise)–
- (iii) Details of any order u/s 73/74 passed in respect of the claim referred to in sub-item (ii) above:
- (a) Order No. - Order dated-
- (b) Amount allowed as per said order (Act-wise)-Rs.
- (c) Interest and penalty levied as per said order (Act-wise)-Rs.
- (d) Whether any appeal preferred against said order- Yes/No
- (e) If appeal filed then Appeal No.- Appeal Date-
- (f) Status of said Appeal- Disposed/Pending
- (g) If appeal disposed off then amount of credit allowed as per said Appeal (Act-wise)-Rs.
- (iv) Amount of transitional credit claimed after the issuance of Circular No. 182/14/2022-GST, 83/2023, dated 01 February, 2023 (Act-wise)–
- (v) Amount of credit allowed in pursuance of claim referred to in sub-item (iii) above (Act-wise)-Rs.
- (vi) Amount under dispute (Act-wise)-Rs.
10. Whether the appellant wishes to be heard in person – Yes / No
11. Statement of facts:
12. Grounds of appeal:
13. Prayer:

#### VERIFICATION

I, < \_\_\_\_\_ >, hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Place:

Date:

Signature  
Name of the Applicant

#### Note:

1. If the space provided for answering any item is found to be insufficient, separate sheets may be used.
2. The letters “N.A.” may be recorded against any item that is not required for this Appeal.

**SUMMARY OF TRANSITIONAL CREDIT AVAILABLE AFTER ISSUE OF ORDER BY THE APPELLATE AUTHORITY WITH REFERENCE TO AN ORDER PASSED IN ACCORDANCE WITH CIRCULAR NO. 182/14/2022-GST, 83/2023, DATED 01 FEBRUARY, 2023**

A. GSTIN -

B. Name of the Appellant/ person-  
Address of the Appellant/person -

C. Order appealed against- Ref. (if any)

Dated-

D. Appeal No.

Dated-

E. Personal Hearing-

F. Order in Brief-

G. Status of Order- Confirmed/Modified/Rejected

H. Amount of Credit/ Demand after Appeal-

Particulars	Central Tax	State/UT Tax
a) Amount of transitional credit found to be admissible pursuant to order of the Proper Officer		
b) Amount determined by Appellate Authority		

Place:

Date:

Signature:

Name of the Appellate Authority:

Designation:

Jurisdiction:

अटल नगर, दिनांक 3 नवम्बर 2023

अधिसूचना

सं. 30/2023-राज्य कर

क्रमांक एफ 10-39/2023/वाक/पांच (58).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, वह वर्णन जिसे इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट किया गया है और यथास्थिति, उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अधीन आती हो, माल के विनिर्माण में लगे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अपनाई जाने वाली निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

**1. पैकिंग मशीनों का विवरण**

(1) इस अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित मालों के विनिर्माण में लगे सभी विद्यमान रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से इस अधिसूचना के जारी किए जाने के 20 दिन के भीतर प्ररूप एस.आर.एम.-1 में पाउच या कंटेनर को भरने और पैक करने के लिए उपयोग की जा रही पैक करने वाली मशीनों के ब्यौरे को तैयार करेगा,—

**प्ररूप एस.आर.एम.-1**

क्र.सं.	मशीन का निर्माण और मॉडल नंबर (निर्माता के)	मशीन की खरीद की	कारबार के स्थान का पता जहां	पटरियों की संख्या	प्रत्येक ट्रेक की पैकिंग क्षमता	मशीन की कुल पैकिंग क्षमता	मशीन द्वारा प्रति घंटे बिजली	सहायक दस्तावेज << चार्टर्ड इंजनियर से	मशीन की यूनिक आईडी (ऑटो)
---------	--	-----------------	-----------------------------	-------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------------------	--------------------------

	नाम सहित)	तारीख	स्थापित किया गया है				की खपत	क्षमता प्रमाण पत्र>>	पॉप्युलेट होने के लिए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

(2) कोई भी व्यक्ति जो इस अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित माल का निर्माण करने का आशय रखता है और जिसे इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, ऐसी रजिस्ट्रेशन के मंजूरी के पंद्रह दिनों के भीतर सामान्य पोर्टल पर प्ररूप एस.आर.एम.-1 में पाउच और कंटेनर को भरने और पैकिंग के लिए उपयोग की जा रही पैकिंग मशीनों के ब्यौरे को पूरा करेगा।

(3) कारबार के रजिस्ट्रीकृत स्थान में स्थापित की जा रही किसी भी अतिरिक्त भरने और पैकिंग मशीन के ब्यौरे प्ररूप-आईआईए-1 में ऐसे अवस्थापन के 24 घंटे के भीतर उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) प्ररूप एसआरएम-1 या प्ररूप एसआरएम-1क में ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करने पर, प्रत्येक मशीन के लिए एक विशिष्ट आईडी तैयार की जाएगी, जिसके ब्यौरे सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

(5) यदि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने किसी अन्य सरकारी विभाग या किसी अन्य अभिकरण या संगठन को विनिर्माण इकाई या उसकी मशीनों को उत्पादन क्षमता प्रस्तुत या घोषित किया है, उक्त घोषणा या प्रस्तुत करने के पंद्रह दिनों के भीतर सामान्य पोर्टल पर प्ररूप एसआरएम-1क में उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा :

परंतु जहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अपनी विनिर्माण इकाई या उसकी मशीनों की उत्पाद क्षमता को किसी अन्य सरकारी विभाग या किसी अन्य अभिकरण या संगठन को इस अधिसूचना को जारी करने से पूर्व प्रस्तुत या घोषित किया है, इस अधिसूचना के जारी किए जाने के तीस दिन के भीतर सामान्य पोर्टल पर प्ररूप एसआरएम-1क में उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

#### प्ररूप एसआरएम-1क

क्र. सं.	सरकारी विभाग/किसी अन्य एजेंसी या संगठन का नाम	घोषणा/प्रस्तुति का प्रकार	घोषणा/प्रस्तुति का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)
		<<घोषणा की प्रति को पोर्टल पर अपलोड किया जाना>>	

#### प्ररूप एसआरएम-1क

[अतिरिक्त मशीन (नों) के अवस्थापन के ब्यौरे]

क्र.सं.	मशीन का मेक और मॉडल नंबर (निर्माता के नाम सहित)	मशीन की खरीद की तारीख	मशीन की स्थापना की तारीख	कारबार के स्थान का पता जहां स्थापित किया गया है	पटरियों की संख्या	प्रत्येक ट्रैक की पैकिंग क्षमता	मशीन की कुल पैकिंग क्षमता	मशीन द्वारा प्रति घंटे बिजली की खपत	सहायक दस्तावेज	मशीन की यूनिक आईडी (ऑटो पॉप्युलेट होने के लिए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									<<चार्टर्ड इंजीनियर से क्षमता प्रमाण पत्र>>	

प्ररूप एस.आर.एम. – 11ख

क्र. सं.	मशीन की यूनिक आईडी	मशीन का निर्माण और मॉडल नंबर << ऑटो पॉप्पूलेट >>	मशीन की खरीद की तारीख << ऑटो पॉप्पूलेट >>	कारबार के स्थान का पता जहां से मशीन को हटाया जाता है. << ऑटो पॉप्पूलेट >>	पटरियों की संख्या << ऑटो पॉप्पूलेट >>	प्रत्येक ट्रैक की पैकिंग क्षमता << ऑटो पॉप्पूलेट >>	मशीन की कुल पैकिंग क्षमता << ऑटो पॉप्पूलेट >>	हटाने की तारीख	मशीन को हटाने/ निपटान करने के कारण।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									<< तीसरे पक्ष को बेचा गया >> << कबाड़ >>

(1) अनुसूची में उल्लिखित माल के विनिर्माण में लगा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कारबार के प्रत्येक स्थान में प्ररूप एस. आर.एम. -III में यथानिर्दिष्ट प्ररूप में इलेक्ट्रानिक मीटर और जनरेटर सेट मीटर की दैनिक रीडिंग के रिकार्ड के साथ-साथ जनित किए गए अपशिष्ट के ब्यौरे के साथ-साथ मात्रा और मूल्य के निबंधन में प्रोद्यभूत और उपयोग किए जा रहे इनपुट के दैनिक अभिलेख को रखेगा।

(2) तथापि, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कारबार के प्रत्येक स्थान में प्ररूप एस.आर.एम. -IIIख में यथाविनिर्दिष्ट एक प्ररूप में मात्रा और मूल्य के निबंधन में मशीन-वार उत्पादन, उत्पाद-वार और ब्रांड-वार अनापत्ति के ब्यौरे के दैनिक शिफ्ट-वार अभिलेख भी रखेगा।

प्ररूप एस.आर.एम. -111क

## इनपूट रजिस्टर

[illegible]



दिन 2									
दिन 3									
.....									
महीने का अंतिम दिन									

दिन 1	बिजली रीडिंग					
	बिजली रीडिंग			जनरेटर सेट मीटर रीडिंग		
	प्रारंभिक मीटर रीडिंग	अंतिम मीटर रीडिंग	खपत (किवा.)	प्रारंभिक मीटर रीडिंग	अंतिम मीटर रीडिंग	खपत (किवा.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दिन 2						
.....						
मास का अंतिम दिन						

प्ररूप एस.आर.एम. -IIIख  
उत्पादन रजिस्ट्रर

दिन 1	ब्रांड बी. 1										ब्रांड 2	ब्रांड बीएन	
	मशीन एम 1 (मशीन की विशिष्ट आईडी का उल्लेख करें)								एम.2	एम ए ल	सभी मशीनों की कुल संख्या		
	पैक किए गए पाउच पी1 की कुल संख्या	पाउच पी. 1 का इकाई मान	पैक किए गए पाउच पी 1 का कुल मूल्य (वी 1) (रूपये में)	पाउच की कुल संख्या ... पी. एन.पी. पैकड	पाउच का मूल्य ..... पी. एन.	पाउच पीएन पैक (वीएन) का कुल मूल्य (रूपये में)	मशीन द्वारा पैक किए गए पाउच की कुल संख्या एम. 1 (पी. 1+पी. 2+..पी. एन.)	मशीन द्वारा पैक किए गए पाउच का कुल मूल्य एम.1 (रू. में) (वी. 1+वी. 2+.. वी.एन)	...	— — —	सभी मशीनों द्वारा ब्रांड बी. 1 का कुल उत्पादन मूल्य (रूपये)	.....	.....
	शिफ्ट1 00:00 से 00. 00 घंटे												

	शिफ्ट2 00:00 से 00. 00 घंटे													
	शिफ्ट3 00:00 से 00. 00 घंटे													
	दिन के लिए कुल 1													
दिन 2														
माह का दिन														
	माह के लिए कुल													

### 3. विशेष मासिक कथन

(1) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के दसवें दिन या उससे पूर्व सामान्य पोर्टल पर प्ररूप एस.आर. एम.-IV में प्रत्येक माह के लिए विशेष कथन प्रस्तुत करेगा।

#### प्ररूप एस. आर. एम.-IV

अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के निर्माता द्वारा उपयोग किए गए आदानों और अंतिम माल का मासिक विवरण

#### भाग-क

महीने के लिए कुल	इनपुट का एचएसएन	इनपुट का विवरण	इकाई की मात्रा	प्रारंभिक रोकड़ (इकाईयों में)	खरीदी गई मात्रा (इकाईयों में)	खरीदी गई मात्रा (रूपये में मूल्य)	मात्रा खपत (इकाईयों में)	अंतिम शेष राशि (इकाईयों में)	उत्पन्न अपशिष्ट (इकाईयों में)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	एसएसएन 1								
	एसएसएन 2								
	एसएसएन 3								
	..... एचएसएन								

मास के लिए कुल 1	बिजली रीडिंग					
	बिजली रीडिंग			जनरेटर सेट मीटर रीडिंग		
	प्रारंभिक मीटर रीडिंग	अंतिम मीटर रीडिंग	खपत (किवा.)	प्रारंभिक मीटर रीडिंग	अंतिम मीटर रीडिंग	खपत (किवा.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

माल के उत्पादन का विवरण  
भाग-ख

	ब्रांड बी. 1										ब्रांड 2	ब्रांड बीएन	
	मशीन एम 1 (मशीन की विशिष्ट आईडी का उल्लेख करें)								एम. 2	एमएल	सभी मशीनों की कुल संख्या		
	पैक किए गए पाउच पी1 की कुल संख्या	पाउच पी. 1 का इकाईमान	पैक किए गए पाउच पी 1 का कुल मूल्य (वी 1) (रूपये में)	पाउच की कुल संख्या ... पी. एन. पी. पैकड	पाउच का मूल्य ... पी. एन.	पाउच पीएन पैक (बीएन) का कुल मूल्य (रूपये में)	मशीन द्वारा पैक किए गए पाउच की कुल संख्या एम. 1 (पी. 1+पी. 2+..पी. एन.)	मशीन द्वारा पैक किए गए पाउच का कुल मूल्य एम.1 (रू. में) (बी. 1+ वी. 2+.. वी. एन.)	...	— —	सभी मशीनों द्वारा ब्रांड बी. 1 का कुल उत्पादन मूल्य (रूपये)	.....	.....
माह के लिए कुल													

## अनुसूची

क्र. सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	2106 90 20	पान-मसाला
2.	2401	अनिर्मित तंबाकू (लाइम ट्यूब के बिना) – एक ब्रांड नाम के साथ।
3.	2401	अनिर्मित तंबाकू (चूने की ट्यूब के साथ) – एक ब्रांड नाम के साथ
4.	2401 30 00	तंबाकू से इंकार, एक ब्रांड नाम तंबाकू से इंकार, एक ब्रांड नाम

5.	2403 11 10	‘हुक्का’ या ‘गुडाकू’ तंबाकू जिसका ब्रांड नाम है
6.	2403 11 10	‘हुक्का’ या ‘चिलम’ धूम्रपान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तंबाकू जिसे आमतौर पर ‘हुक्का’ तंबाकू या ‘गुडाकू’ के रूप में जाना जाता है, जिसका ब्रांड नाम नहीं है
7.	2403 11 90	अन्य पानी पाइप धूम्रपान तंबाकू एक ब्रांड नाम नहीं रखते हैं।
8.	2403 19 10	पाइप और सिगरेट के लिए धूम्रपान मिश्रण
9.	2403 19 90	ब्रांड नाम वाले अन्य धूम्रपान तंबाकू
10.	2403 19 90	अन्य धूम्रपान करने वाले तंबाकू का ब्रांड नाम नहीं है
11.	2403 91 00	“होमोजेनाइज्ड” या “पुनर्गठित” तंबाकू जिसका ब्रांड नाम है
12.	2403 99 10	चबाने वाला तंबाकू (चूने की ट्यूब के बिना)
13.	2403 99 10	चबाने वाला तंबाकू (चूना ट्यूब के साथ)
14.	2403 99 10	फिल्टर खैनी
15.	2403 99 20	चबाने वाले तंबाकू युक्त तैयारी
16.	2403 99 30	जर्दा सुगंधित तंबाकू
17.	2403 99 40	सुघनी
18.	2403 99 50	सुघनी युक्त तैयारी
19.	2403 99 60	तंबाकू के अर्क और एक ब्रांड नाम वाले सार
20.	2403 99 60	तंबाकू के अर्क और सार पर ब्रांड नाम नहीं है
21.	2403 99 70	तंबाकू में कटौती
22.	2403 99 90	पान मसाला जिसमें तंबाकू ‘गुटखा’ होता है
23.	2403 99 90	पान मसाला के अलावा तंबाकू ‘गुटखा’ युक्त सभी सामान, एक ब्रांड नाम के साथ
24.	2403 99 90	पान मसाला के अलावा तंबाकू ‘गुटखा’ युक्त सभी सामान, जिनका ब्रांड नाम नहीं है

### स्पष्टीकरण

(1) अनुसूची में, “टैरिफ मद”, “शीर्ष”, “उपशीर्ष” तथा “अध्याय” से सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद शीर्ष, उपशीर्ष और अध्याय अभिप्रेत हैं

(2) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के निर्वचन के लिए नियम जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची की धारा तथा अध्याय टिप्पण और साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, इस अधिसूचना के निर्वचन में जहां तक वे लागू हैं।

(3) इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए “ब्रांड नाम” वाक्यांश से ब्रांड नाम या व्यापार नाम चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो अथवा नहीं, जैसा कि कहा जाता है एक नाम या मार्क अभिप्रेत है, जैसे प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कृत शब्द या लिखा जाना, जो चिह्नित करने के प्रयोजन के लिए ऐसे विशिष्ट माल के संबंध में प्रयोग किया जाता है या ऐसे विशिष्ट माल के मध्य व्यापार के अनुक्रम में संबंध को दर्शित करता हो तथा कुछ व्यक्ति ऐसे नाम या चिह्न के साथ या उस व्यक्ति की पहचान के किसी चिह्नांकन के बिना प्रयोग किया जाता हो।

4. इस अधिसूचना को 31 जुलाई, 2023 से लागू माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हिम शिखर गुप्ता, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 03 नवम्बर 2023

क्रमांक एफ 10-39/2023/वाक/पांच (58) – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-39/2023/वाक/पांच(58), दिनांक 03-11-2023 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हिम शिखर गुप्ता, सचिव.

Atal Nagar, the 3rd November 2023

**NOTIFICATION**  
No. 30/2023 – State Tax

No. F 10-39/2023/CT/V(58).— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the following special procedure to be followed by a registered person engaged in manufacturing of the goods, the description of which is specified in the corresponding entry in column (3) of the Schedule appended to this notification, and falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule, namely:—

**1. Details of Packing Machines**

- (1) All the existing registered persons engaged in manufacturing of the goods mentioned in Schedule to this notification shall furnish the details of packing machines being used for filling and packing of pouches or containers in FORM SRM-I, within 30 days of issuance of this notification, electronically on the common portal,—

**FORM SRM-I**

Serial No.	Make and Model No. of the Machine (including the name of manufacturer)	Date of Purchase of the Machine	Address of place of business where installed	No. of Tracks	Packing Capacity of each track	Total packing capacity of machine	Electricity consumption by the machine per hour	Supporting Documents	Unique ID of the machine (to be auto populated)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								<<Capacity certificate from Chartered Engineer>>	

- (2) Any person intending to manufacture goods as mentioned in Schedule to this notification, and who has been granted registration after the issuance of this notification, shall furnish the details of packing machines being used for filling and packing of pouches or containers in FORM SRM-I on the common portal, within fifteen days of grant of such registration.
- (3) The details of any additional filling and packing machine being installed in the registered place of business shall be furnished, electronically on the common portal, by the said registered person within 24 hours of such installation in FORM SRM-IIA.
- (4) Upon furnishing of such details in FORM SRM-I or FORM SRM-IIA, a unique ID shall be generated for each machine, whose details have been furnished by the registered person, on the common portal.
- (5) In case, the said registered person has submitted or declared the production capacity of his manufacturing unit or his machines, to any other government department or any other agency or organization, the same shall be furnished by the said registered person in FORM SRM-IA on the common portal, within fifteen days of filing said declaration or submission:

Provided that where the said registered person has submitted or declared the production capacity of his manufacturing unit or his machines, to any other government department or any other agency or organization, before the issuance of this notification, the same shall be furnished by the said registered person in FORM SRM-IA on the common portal, within thirty days of issuance of this notification.

## FORM SRM-IA

Serial No.	Name of Govt. Department/ any other agency or organization	Type of Declaration/ Submission	Details of Declaration/Submission
(1)	(2)	(3)	(4)
		<<copy of declaration to be uploaded on the portal>>	

## FORM SRM-IIA

[Details of installation of additional machine(s)]

Serial No.	Make and Model No. of the Machine (including the name of manufacturer)	Date of Purchase of the Machine	Date of installation of the Machine	Address of place of business where installed	No. of Tracks	Packing Capacity of each track	Total packing capacity of machine	Electricity consumption by the machine per hour	Supporting Documents	Unique ID of the machine (to be auto populated)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									<<Capacity certificate from Chartered Engineer>>	

- (6) The details of any existing filling and packing machine removed from the registered place of business shall be furnished, electronically on the common portal, by the said registered person within 24 hours of such removal in FORM SRM-IIB.

## FORM SRM-IIB

[Details of removal of the existing machine(s)]

Serial No.	Unique ID of the machine	Make and Model No. of the Machine <<auto-populated>>	Date of Purchase of the Machine <<auto-populated>>	Address of place of business from where the machine is removed. <<auto-populated>>	No. of Tracks <<auto-populated>>	Packing Capacity of each track <<auto-populated>>	Total packing capacity of machine <<auto-populated>>	Date of Removal	Reasons for removal/disposal of the machine.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									<<Sold to third party>> <<Scrap>>



IIIB

Day 1	Electricity Reading					
	Electricity meter reading			Generator set meter reading		
	Initial Meter Reading	Final Meter Reading	Consumption (kWh)	Initial Meter Reading	Final Meter Reading	Consumption (kWh)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Day 2						
.....						
Last Day of Month						

FORM SRM-  
Production Register



Day 1		Brand B1											Brand B2	Brand Bn
		Machine M1( Mention Unique ID of the machine)								M 2	M n	Total of all machines		
		Total no. of Pouch P1	Unit Value Of Pouch P1	Total Value Of Pouches P1 Packed( V1) (in Rs)	Total no. of Pouch ...P n packed	Value Of Pouch ...P n	Total Value Of Pouches Pn Packed (Vn) (in Rs)	Total No. of pouches Packed by Machine M1 (P1+P2+..Pn )	Total value of Pouches packed By machine M1 (in Rs) (V1+V2 +..Vn)	...	-- -	Total Production value of Brand B1 by all machines (Rs)		
	Shift 1 00:00 to 00.00 hrs													
	Shift 2 00:00 to 00.00 hrs													
	Shift 3 00:00 to 00.00 hrs													
	Total for Day 1													
	Day 2													
....Dayn of the month														
	Total for the Month													

### 3. Special Monthly Statement

- (1) The said registered person shall submit a special statement for each month in FORM SRM-IV on the common portal, on or before the tenth day of the month succeeding such month.

Monthly Statement of Inputs used and the final goods produced by the manufacturer of goods specified in Schedule

PART-A

Total for Month	HSN of the Input	Description of the Input	Unit quantity	Opening Balance (in units)	Quantity procured (in units)	Quantity procured (value in Rs)	Qty Consumed (in units)	Closing Balance (in units)	Waste generated qty (in units)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	HSN1								
	HSN2								
	HSN3								
	.....								
	HSNn								

Total for the Month	Electricity Reading					
	Electricity meter reading			DG set meter reading		
	Initial Meter Reading on Day 1 of the month	Final Meter Reading on last day of the month	Consumption (kWh)	Initial Meter Reading on Day 1 of the month	Final Meter Reading on last day of the month	Consumption (kWh)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Statement of production of goods  
PART-B

	Brand B1								Brand B2	Brand Bn
	Machine M1								Total of all machines	
	Total no. of Pouch P1 packed	MRP Value Of Pouch P1	Total Value Of Pouches P1 Packed (in Rs)	Total no. of Pouch Pn packed	Value Of Pouch Pn	Total Value Of Pouches Pn Packed (in Rs)	Total No. of pouches Packed by Machine M1 (P1+P2+...Pn)	Total value of Pouches packed By machine M1 (in Rs) (V1+V2+...Vn)		
									...	...
Total for the Month										

## SCHEDULE

S.No	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	2106 90 20	Pan-masala
2.	2401	Unmanufactured tobacco (without lime tube) – bearing a brand name
3.	2401	Unmanufactured tobacco (with lime tube) – bearing a Brand name
4.	2401 30 00	Tobacco refuse, bearing a brand name
5.	2403 11 10	'Hookah' or 'gudaku' tobacco bearing a brand name
6.	2403 11 10	Tobacco used for smoking 'hookah' or 'chilam' commonly known as 'hookah' tobacco or 'gudaku' not bearing a brand name
7.	2403 11 90	Other water pipe smoking tobacco not bearing a Brand name.
8.	2403 19 10	Smoking mixtures for pipes and cigarettes
9.	2403 19 90	Other smoking tobacco bearing a brand name
10.	2403 19 90	Other smoking tobacco not bearing a brand name
11.	2403 91 00	“Homogenised” or “reconstituted” tobacco, bearing a brandname
12.	2403 99 10	Chewing tobacco (without lime tube)
13.	2403 99 10	Chewing tobacco (with lime tube)
14.	2403 99 10	Filter khaini
15.	2403 99 20	Preparations containing chewing tobacco
16.	2403 99 30	Jarda scented tobacco
17.	2403 99 40	Snuff
18.	2403 99 50	Preparations containing snuff
19.	2403 99 60	Tobacco extracts and essence bearing a brand name

20.	2403 99 60	Tobacco extracts and essence not bearing a brand Name
21.	2403 99 70	Cut tobacco
22.	2403 99 90	Pan masala containing tobacco 'Gutkha'
23.	2403 99 90	All goods, other than pan masala containing tobacco 'gutkha', bearing a brand name
24.	2403 99 90	All goods, other than pan masala containing tobacco 'gutkha', not bearing a brand name

**Explanation.—**

- (1) In this Schedule, “tariff item”, “heading”, “sub-heading” and “Chapter” shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).
- (2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.
- (3) For the purposes of this notification, the phrase “brand name” means brand name or trade name, whether registered or not, that is to say, a name or a mark, such as symbol, monogram, label, signature or invented word or writing which is used in relation to such specified goods for the purpose of indicating, or so as to indicate a connection in the course of trade between such specified goods and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person.
4. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 31st day of July, 2023.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
HIM SHIKHAR GUPTA, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 03 नवम्बर 2023

अधिसूचना  
सं. 32/2023—राज्य कर

क्रमांक एफ 10-39/2023/वाक/पांच (59).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 44 के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका वित्तीय वर्ष 2022-23 में सकल आवर्त दो करोड़ रुपये तक है, को उक्त वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक विवरणी फाइल करने से छूट प्रदान करते हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हिम शिखर गुप्ता, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 3 नवम्बर 2023

क्रमांक एफ 10-39/2023/वाक/पांच (59).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-39/2023/वाक/ पांच(59), दिनांक 03-11-2023 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हिम शिखर गुप्ता, सचिव.

Atal Nagar, the 3rd November 2023

NOTIFICATION  
No. 32/2023 – State Tax

No. F 10-39/2023/CT/V(59).— In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 44 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby exempts the registered person whose aggregate turnover in the financial year 2022-23 is up to two crore rupees, from filing annual return for the said financial year.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
HIM SHIKHAR GUPTA, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 03 नवम्बर 2023

अधिसूचना  
सं. 34 / 2023—राज्य कर

क्रमांक एफ 10-39 / 2023 / वाक / पांच (60).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इसमें इसके पश्चात् “उक्त अधिनियम” कहा गया है) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, एक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य आपरेटर के माध्यम से मालों की पूर्ति करने वाले व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रह करने की आवश्यकता होती है और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त, कुल आवर्त से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसके ऊपर एक आपूर्तिकर्ता उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायित्व के अधीन है, उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्तियों की श्रेणी के रूप में, निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे, अर्थात् :—

- (i) ऐसे व्यक्ति माल की कोई अन्तरराज्यीय आपूर्ति नहीं करेंगे ;
- (ii) ऐसे व्यक्ति एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से अधिक में इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य आपरेटर के माध्यम से मालों की आपूर्ति नहीं करेंगे ;
- (iii) ऐसे व्यक्तियों को आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन जारी स्थायी खाता संख्यांक की आवश्यकता होगी ;
- (iv) ऐसे व्यक्ति, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य आपरेटर के माध्यम से माल की आपूर्ति करने से पूर्व, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन जारी अपना स्थायी खाता संख्यांक, अपने व्यवसाय के स्थान और राज्य या संघ राज्यक्षेत्र, जिनमें ऐसी आपूर्ति करने का इच्छुक है, सामान्य पोर्टल पर घोषित करेंगे, जो सामान्य पोर्टल पर विधिमन्यकरण के अधीन होगा ;
- (v) ऐसे व्यक्तियों को, खंड 5(अ) के अनुसार घोषित स्थायी खाता संख्यांक के सफलतापूर्वक विधिमन्यकरण के लिए सामान्य पोर्टल पर एक नामांकन संख्या प्रदान की गई है ;
- (vi) ऐसे व्यक्ति को एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में एक से अधिक नामांकन संख्या प्रदान नहीं की जाएगी ;
- (vii) ऐसे व्यक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य आपरेटर के माध्यम से माल की आपूर्ति नहीं की जाएगी, तब तक कि ऐसे व्यक्तियों को सामान्य पोर्टल पर नामांकन संख्या प्रदान नहीं की गई हो ;  
और
- (viii) जहां ऐसे व्यक्तियों को उक्त अधिनियम की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की पश्चात्पूर्ति अनुमति दी जाती है, नामांकन संख्या रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख से विधिमन्य नहीं रह जाएगी ।

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हिम शिखर गुप्ता, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 30 अक्टूबर 2023

क्रमांक एफ 10-39/2023/वाक/पांच (60).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-39 /2023/वाक/पांच(60), दिनांक 02-11-2023 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हिम शिखर गुप्ता, सचिव.

Atal Nagar, the 3rd November 2023

NOTIFICATION  
No. 34/2023 – State Tax

No. F 10-39/2023/CT/V(60).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby specifies the persons making supplies of goods through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52 of the said Act and having an aggregate turnover in the preceding financial year and in the current financial year not exceeding the amount of aggregate turnover above which a supplier is liable to be registered in the State or Union territory in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 22 of the said Act, as the category of persons exempted from obtaining registration under the said Act, subject to the following conditions, namely : —

- (i) such persons shall not make any inter-State supply of goods;
- (ii) such persons shall not make supply of goods through electronic commerce operator in more than one State or Union territory;
- (iii) such persons shall be required to have a Permanent Account Number issued under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961);
- (iv) such persons shall, before making any supply of goods through electronic commerce operator, declare on the common portal their Permanent Account Number issued under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), address of their place of business and the State or Union territory in which such persons seek to make such supply, which shall be subjected to validation on the common portal;
- (v) such persons have been granted an enrolment number on the common portal on successful validation of the Permanent Account Number declared as per clause (iv);
- (vi) such persons shall not be granted more than one enrolment number in a State or Union territory;
- (vii) no supply of goods shall be made by such persons through electronic commerce operator unless such persons have been granted an enrolment number on the common portal; and
- (viii) where such persons are subsequently granted registration under section 25 of the said Act, the enrolment number shall cease to be valid from the effective date of registration.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2023.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
HIM SHIKHAR GUPTA, Secretary.